



MICHELLE BAASS
DIRECTOR

State of California—Health and Human Services Agency
Department of Health Care Services



GAVIN NEWSOM
GOVERNOR

बढ़ोतरी के बारे में ज़रूरी खबर Medicare Savings Programs के लिए संपत्ति सीमाएँ

प्रिय Medicare Savings Program आवेदक:

एक नए California कानून के तहत संपत्तियों (जायदाद और धन) की वह कुल राशी बढ़ा दी गई है, जो किसी व्यक्ति या परिवार के पास हो सकती है और जिसके बावजूद वह उन Medicare Savings Programs के लिए योग्य हो सकता है, जो Medicare प्रीमियम और आउट-ऑफ़-पॉकेट कीमतों का भुगतान करते हैं। हम जिन संपत्तियों की गिनती कर रहे हैं उनमें बैंक अकाउंट, नकदी, द्वितीयक वाहन और घर और दूसरे आर्थिक संसाधन शामिल हैं।

Medicare Savings Programs के लिए संपत्ति सीमाएँ 1 जुलाई, 2022 को बढ़ा दी जाएँगी
यह तय करते समय कि क्या आप किसी Medicare Savings Program के लिए योग्य हैं हम जिन संपत्तियों की गिनती करते हैं उनकी सीमाएँ **1 जुलाई, 2022** को बढ़ा दी जाएँगी। ये राशियाँ आपके परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर हैं:

परिवार में सदस्यों की संख्या	पुरानी संपत्ति सीमाएँ	नई संपत्ति सीमाएँ
1 व्यक्ति	\$2,000	\$130,000
2 लोग (पहले "जोड़ा" कहा जाता था)	\$3,000	\$195,000

अगर आपने जून के महीने में 30 जून, 2022 से पहले Medicare Savings Program के लिए आवेदन किया था और आपकी संपत्तियाँ पुरानी संपत्ति सीमा से ज़्यादा थीं, तो जुलाई 2022 और उसके बाद से आपकी काउंटी आपकी योग्यता तय करेगी। अगर हमने आपके Medicare Savings Program के लिए आवेदन की मंजूरी 1, जुलाई, 2022 को या उसके बाद दी है, तो हम आपको हमारा फैसला बताने के लिए एक पत्र भेजेंगे।

अगर आपकी संपत्तियाँ 1 जनवरी, 2022 से 30, जून, 2022 तक Medicare Savings Program के लिए योग्य होने के लिए सीमा से ज़्यादा थीं, लेकिन नई संपत्ति सीमा से कम हैं, तो अब आप Medicare Savings Program के लिए योग्य हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह आपकी स्थिति से मेल खाती है, तो आप Medicare Savings Program के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं:

- **खुद जाकर या फ़ोन से।** अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय चले जाएँ या उन्हें कॉल करें।

- **डाक से या ऑनलाइन।** यह आवेदन फ़ॉर्म प्राप्त करने के लिए Department of Health Care Services की वेबसाइट <https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/Index-MC13-MC0805.aspx> पर जाएँ। फ़ॉर्म को प्रिंट करें और उसे अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय पर छोड़ जाएँ या डाक से भेज दें।

स्थानीय काउंटी कार्यालयों की एक सूची इस पत्र के साथ भेजी गई है। या फिर Department of Health Care Services की वेबसाइट [dhcs.ca.gov/col](https://www.dhcs.ca.gov/col) पर जाएँ।

सवाल हैं?

अगर आपके पास इस बदलाव के बारे में सवाल हैं या आपको मदद चाहिए, तो अपने स्थानीय काउंटी कार्यालय से संपर्क करें। Medicare Savings Programs के बारे में आम सवालों के लिए, Medi-Cal हेल्पलाइन को **1-800-541-5555** पर कॉल करें। यह कॉल निःशुल्क है।

धन्यवाद,

Department of Health Care Services
State of California